



FIROZABAD POLICE

★ सुरक्षा आपकी ★
★ संकल्प हमारा ★



सराहनीय कार्य दिनांक 13-07-2022 थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद ।

थाना दक्षिण व सर्विलाँस पुलिस टीम द्वारा 48 घण्टे के अन्दर जहरखुरानी की घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्त सूरज कुमार को सम्पूर्ण माल सहित किया गया गिरफ्तार ।

- अभियुक्त सूरज द्वारा पीडित को मर्चेन्ट नेवी के फिजिकल चेकअप के लिए बुलाया गया था फिरोजाबाद ।
- कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पीडित को बेहोश कर लूट लिया गया था सामान ।
- थाना दक्षिण व सर्विलाँस पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही कर किया अभियुक्त को गिरफ्तार ।

घटना का विवरण:- शिकायतकर्ता सचिन तिवारी पुत्र श्री रवि शंकर तिवारी निवासी ग्राम धींसापुर वजहा मिश्रान पोस्ट सैदाबाद थाना हण्डिया जनपद प्रयागराज द्वारा बताया गया कि मेरे पास लगभग तीन दिन पूर्व मो0नं0 9131431598 से कॉल आई उक्त मोबाईल नम्बर धारक अपना नाम कैप्टन मनोज शर्मा बता रहा था और उसने मुझसे कहा कि मर्चेन्ट नेवी में फीजिकल चेकअप चल रहा है आप फिरोजाबाद आ जाइये । इस बात पर शिकायत कर्ता दिनांक 10.07.2022 को समय 10.00 बजे दिन में प्रयागराज से सिक्किम महानन्दा पकड कर दिनांक 10.07.2022 की शाम 5.00 बजे रेलवे स्टेशन फिरोजाबाद आ गया और उक्त व्यक्ति के बताये कथन के अनुसार फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर उतर गया । ट्रेन से उतरकर शिकायतकर्ता ने अपने मोबाईल न0-7738858385 से उस व्यक्ति को उसके मोबाईल न0- मो0नं0 9131431598 पर फोन किया तो उक्त मो0नं0 9131431598 धारक शिकायतकर्ता को अपने साथ रेलवे स्टेशन के पास में गंगा लॉज लेकर गया गया जहाँ शिकायत को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पर्स में रखे तीन हजार रुपये,पैन कार्ड, आधार कार्ड, HDFC बैंक का एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, निर्वाचन कार्ड एवं मोबाइल रीयल मी प्रो-2 रंग नीला जिसमें सिम 7738858385 पडा हुआ था, की चोरी कर ली और शिकायतकर्ता को बेहोशी की हालत में गंगा लॉज में छोड़कर चला गया । उक्त घटना के क्रम में शिकायतकर्ता की तहरीर के आधार पर थाना दक्षिण पर मु0अ0स0 339/2022 धारा 328/379 भादवि बनाम मो0नं0 9131431598 के धारक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक दक्षिण को टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया । घटना के अनावरण के लिये पतारसी सुरागरसी व मुखबिरान मामूर किये गये, सर्विलान्स की मदद ली गयी । पुलिस टीमों द्वारा किये गये अथक परिश्रम व कार्यशीलता के आधार पर उक्त अभियोग में घटित अपराध का सफल अनावरण करते हुये दिनांक 13/07/2022 को समय करीब 10.45 बजे माल गोदाम रोड से दक्षिण पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 339/2022 धारा 328/379/411 भादवि में प्रकाश में आये अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र

राजकुमार तोमर निवासी विकास कॉलोनी भाग 3 पक्का बाग हर्षवर्धन होटल के पीछे थाना इकदिल जनपद इटावा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में जहरखुरानी करके चोरी किये गये सम्पूर्ण माल की बरामदगी की गयी। अभियुक्त सूरज कुमार उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सूरज कुमार पुत्र राजकुमार तोमर निवासी विकास कॉलोनी भाग-3 पक्का बाग हर्षवर्धन होटल के पीछे थाना इकदिल जनपद इटावा।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 339/2022 धारा 328/379/4111 भादवि थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
2. मु0अ0स0 213/2017 धारा 323/498/ए/504/506 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना इकदिल जिला इटावा।
3. मु0अ0स0 413/2022 धारा 379/411 भादवि थाना इकदिल जिला इटावा।
4. मु0अ0स0 92/2018 धारा 120बी/420/467/468/471 भादवि थाना फ्रेडस कॉलौनी जिला इटावा।

अभियुक्त से बरामद माल का विवरण:-

1. एक अदद मोबाईल रियल मी प्रो0-2 व रंग नीला।
2. एक अदद मोबाईल वीवो रंग हल्का आसमामनी वाई 21
3. एक अदद एटीएम एचडीएफसी जिसमें से दो एटीएम एचडीएफसी बैंक एक एटीएम कार्ड IDBI
5. एक पास बुक एचडीएफसी बैंक
7. वादी मुकदमा के चोरी हुये 2000 रुपये नगद बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक बैजनाथ सिंह प्रभारी थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
2. निरीक्षक रवि त्यागी प्रभारी क्राइम ब्रांच जिला फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 राजेन्द्र सिंह थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
5. हे0का0 करन क्राइम ब्रांच जिला फिरोजाबाद।
6. हे0का0 प्रशान्त सिंह क्राइम ब्रांच जिला फिरोजाबाद।
7. का0 576 राहुल पाठक थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
8. का0 123 भूपेन्द्र कुमार थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।